

Report of the E-Learning Activities

By Mr. Shivam Shukla

Assistant Professor

Department of Commerce

Date: 18-04-2020

आज दिनांक 18 अप्रैल 2020 को प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 12:30 तक मेरे द्वारा एम० कॉम० (चतुर्थ सेमेस्टर) के विद्यार्थियों की प्रतिभूति विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबन्ध (Security Analysis & Portfolio Management) नामक विषय की एक ऑनलाइन कक्षा ZOOM APP पर ली गयी। उक्त कक्षा का विषय आधारभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) था।

इस ऑनलाइन सत्र में उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा किये गए प्रश्न एवं मेरे द्वारा दिये गए उनके उत्तर निम्नलिखित हैं:

1. फंडामेंटल एनालिसिस क्या है?

उत्तर - फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक अथवा कंपनी की स्थिति को वित्तीय स्तर पर जांच करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार के विश्लेषण में किसी कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर उसके वित्तीय स्वास्थ्य का निर्धारण किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में किसी कंपनी और उससे जुड़े अलग-अलग तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें यह भी पता चलता है कि किसी स्टॉक का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए।

2. फंडामेंटल एनालिसिस में कौन-कौन से कारकों का प्रमुखता से विश्लेषण किया जाता है?

उत्तर- फंडामेंटल एनालिसिस में निम्नलिखित कारकों का प्रमुख रूप से विश्लेषण किया जाता है:

- कंपनी की पुराने वर्षों की आय।
- कंपनी की आय एवं उत्पादन में साल दर साल वृद्धि की दर।
- कंपनी द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की निवेशकों द्वारा अपेक्षाएं।
- कंपनी के स्टॉक में जोखिम की संभावनाएं।
- कंपनी को संचालित करने वाले प्रवर्तकों एवं प्रमुख निवेशकों की जानकारीयाँ।

3. फंडामेंटल विश्लेषण के अंतर्गत कौन-कौन से विश्लेषण किये जाते हैं?

उत्तर- फंडामेंटल विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार के उप विश्लेषण किये जाते हैं:

- आर्थिक विश्लेषण।
- औद्योगिक विश्लेषण।
- कंपनी (वित्तीय) विश्लेषण।

4. आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किन कारकों का अध्ययन किया जाता है?

उत्तर- आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत निम्नांकित कारकों का विश्लेषण किया जाता है:

- देश की राजकोषीय नीति।
- देश की मौद्रिक नीति।




- (c) सकल घरेलू उत्पाद।
- (d) बचत एवं विनियोग दर।
- (e) महंगाई दर।
- (f) बजट
- (g) व्यावसायिक साईकल।
- (h) बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएं।

5. औद्योगिक जीवन चक्र के चरण क्या है?

उत्तर- किसी भी सामान्य उद्योग के जीवन में प्रायः चार चरण आते हैं जो निम्न हैं:

- (A) अग्रणी चरण (Pioneering Stage)
- (B) तीव्र विकास चरण (Rapid Growth Stage)
- (C) परिपक्वता एवं स्थिरीकरण चरण (Maturity and Stabilization Stage)
- (D) अवनति चरण (Declining Stage)



शिवम शुक्ला
सहायक आचार्य
वाणिज्य विभाग
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)